

इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड

व्यवसाय साझेदारों और लेनदारों हेतु नीति

(निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक २२ फरवरी २०१३ को मीटिंग संख्या २/२०१३ में अनुमोदित)

टिप्पणी

इस नीति में निहित कोई प्रावधान यदि किसी स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम से मतभेद उत्पन्न करता है तो उस दशा में लागू स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम ही प्रभावी रहेगा।

विषय - सूची

सिद्धांत और अभ्यास	1
उत्तरदायित्व	1
क्रय-विक्रय प्रक्रियाओं में नैतिकता हेतु नीति	1

व्यवसाय साझेदारों और लेनदारों हेतु नीति

इंडोरामा वेंचर्स ऐसे व्यावसायिक साझेदारों और लेनदारों से माल और सेवाएं लेने में विश्वास करते हैं जो नैतिकता से कार्य करते हैं। हम उन संगठनों के साथ काम करना चाहते हैं जो हमारे मूल्यों और आकांक्षाओं में भागीदारी निभाते हैं।

सिद्धांत और अभ्यास

इंडोरामा वेंचर्स कार्य के दौरान नैतिक सिद्धांतों और उत्कृष्टता बनाये रखने में दृढ़ विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुख्य व्यापारिक साझेदार और लेनदार हमारे निर्दिष्ट नैतिक व्यावसायिक मानदंडों जैसे उनके कर्मचारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से रोजगार का चयन; सुरक्षित और स्वच्छ कार्य वातावरण प्रदान करना, बाल श्रम निषेध; कार्य के अनुरूप और समान कार्य पर समान मजदूरी और जहां भी संभव हो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान, निर्धारित घंटों से अधिक कार्य नहीं लेना, स्थानीय दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य लेना आदि का पालन करें।

हम अपने प्रमुख व्यावसायिक साझेदारों और लेनदारों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा करते हैं कि उनके यहाँ किसी कठोर, क्रूर या अपमानजनक व्यवहार की अनुमति नहीं है और न ही अनुशासनात्मक उपायों के रूप में मजदूरी से कोई कटौती की जाती है और कार्यस्थल पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

इंडोरामा वेंचर्स की भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पष्ट नीति के अनुसरण में हमारे अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों और लेनदारों को यह आवश्यक है कि वे किसी भी प्रकार से रिश्वत, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेल या धमकाने आदि में लिप्त न हों।

हमारे अपने प्रमुख व्यावसायिक साझेदारों और लेनदारों को यह आवश्यक है कि वे पर्यावरणीय पर्यवेक्षण पर हमारी स्पष्ट नीति का भी अनुसरण करें और अपनी समस्त व्यापारिक गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण को स्थान दें।

उत्तरदायित्व

इस नीति को लागू करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व हमारे व्यापार समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रुप सीईओ) की है।

सम्बंधित समूह व्यापार प्रमुख (ग्रुप बिजनेस हेड्स), संबंधित बाजारों में इस नीति के कार्यान्वयन के लिए एवं इस नीति के प्रदर्शन के लिए निगरानी करने और सूचित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

क्रय-विक्रय प्रक्रियाओं में नैतिकता हेतु नीति

जैसा कि इंडोरामा वेंचर्स अपने व्यापार संचालन में अनेकों प्रकार की आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं और प्रमुख सेवाएं देने के लिए अपने प्रमुख व्यावसायिक साझेदारों और लेनदारों पर अधिकांशतः निर्भर हैं इसलिए हमें व्यवसाय में सफलता हेतु अपने व्यापारिक साझेदारों और लेनदारों के साथ अच्छे कार्य सम्बन्ध

व्यवसाय साझेदारों और लेनदारों हेतु नीति

आवश्यक हैं। अतः हम हम स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि हमारी क्रय विक्रय नीति हमारे एकीकृत व्यवसाय मानदंडों का अंग है।

हमें यह कहते हुए हर्ष होता है कि हमारा उद्देश्य हमारे अपने व्यापार भागीदारों और लेनदारों के साथ आपसी सम्मान, विश्वास और समझ पर आधारित मजबूत रिश्ते विकसित करना है।

हम अपने व्यावसायिक साझेदारों और लेनदारों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे व्यवसायिक सिद्धांतों का पालन वैसे ही करें जैसे हम करते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे अपने व्यापार क्षेत्रों में उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन व वितरण प्रासंगिक विधि और विधानों की अनुपालना करते हुए करें।

इसलिए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जिन उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति वे हमें करते हैं उनके उत्पादन व वितरण के दौरान वे हमारी नीतियों के अनुरूप स्वीकार्य सुरक्षा, पर्यावरण, उत्पाद की गुणवत्ता, श्रम, मानव अधिकार, सामाजिक और कानूनी सिद्धांतों को अपनाएं और कार्यान्वित करें।

हम प्रतियोगी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं परन्तु यह भी सुनिश्चित करते हैं कि वे ऐसे स्रोतों से आयीं हैं जहाँ किसी मानव अधिकार, सुरक्षा या पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। हम अपने व्यावसायिक साझेदारों और लेनदारों से भी यही अपेक्षा करते हैं।

हमें अपने व्यावसायिक साझेदारों और लेनदारों से हमारे साथ अपने रिश्तों में निरंतर सुधार करने की अपेक्षा रखते हैं और ऐसे अवसर तलाशते हैं जहाँ हम उनके साथ मिलकर उनके उत्पादों, सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में सुधार कर सकें।

इसके बदले में जहाँ भी संभव है वहाँ हम अपने व्यावसायिक साझेदारों और लेनदारों के साथ दोनों पक्षों के दीर्घकालिक लाभ के लिए सार्थक संबंधों को विकसित करने और गुणवत्ता, पर्यावरण संरक्षण, उत्पादों और सेवाओं की स्थिरता में सुधार करने का प्रयास करेंगे। हम अपने व्यावसायिक साझेदारों और लेनदारों से निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनसे भी ऐसी ही प्रतिबद्धता की अपेक्षा करते हैं।